

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 जून 2015—ज्येष्ठ 22, शक 1937

## भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश

सतना, दिनांक 4 जून 2015

क्र. डूडा-174.—मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 4-520-अट्टारह-3-04, दिनांक 24 फरवरी 2004 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) के अन्तर्गत कलेक्टर सतना, नगरपालिका परिषद् मैहर, जिला सतना के वार्डों का परिसीमन नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्वारा अवधारित करता हूँ :—

### अनुसूची

क्र. (1)	वार्ड क्रमांक (2)	वार्ड का नाम (3)
01	1	शारदा देवी वार्ड
02	2	मदन मोहन मालवीय वार्ड
03	3	गोलामठ वार्ड
04	4	बल्लभ भाई पटेल वार्ड
05	5	बाबा अलाउद्दीन वार्ड
06	6	चंडीदेवी वार्ड
07	7	जवाहरलाल नेहरू वार्ड
08	8	मौलाना अब्दुल कलाम वार्ड
09	9	महाराणा प्रताप वार्ड
10	10	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
11	11	शीतला देवी वार्ड

(1)	(2)	(3)
12	12	सुभाष चंद्र बोस वार्ड
13	13	राजीव गांधी वार्ड
14	14	महात्मा गांधी वार्ड
15	15	गुरूनानक वार्ड
16	16	चंद्रशेखर आजाद वार्ड
17	17	लालबहादुर शास्त्री वार्ड
18	18	डॉ. अम्बेडकर वार्ड
19	19	डॉ. राधाकृष्णन वार्ड
20	20	इन्दिरा गांधी वार्ड
21	21	स्वामी नीलकण्ठ वार्ड
22	22	भगत सिंह वार्ड
23	23	टमस वार्ड
24	24	गोपाल बाग वार्ड

क्रमांक (1)	वार्ड क्रमांक (2)	अनुसूचित जाति की जनसंख्या (3)	अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या (4)	कुल जनसंख्या (5)
01	1	407	132	2917
02	2	1311	13	3119
03	3	287	701	1915
04	4	882	313	2905
05	5	91	102	2186
06	6	142	32	2418
07	7	184	18	2682
08	8	25	81	2397
09	9	1228	858	2978
10	10	58	00	2465
11	11	22	00	2437
12	12	436	02	2453
13	13	22	10	2043
14	14	433	320	2446
15	15	412	326	2982
16	16	16	11	2339
17	17	42	28	2026
18	18	907	46	2366
19	19	205	243	2977
20	20	1302	136	2543
21	21	580	114	3142
22	22	32	251	2343
23	23	602	1064	2519
24	24	456	66	2095
योग		10082	4867	60693

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संतोष मिश्र, कलेक्टर

## वार्डों की सीमाओं का वर्णन

## वार्ड क्रमांक 01—शारदा देवी वार्ड

सम्मिलित क्षेत्र—अरकण्डी, कोलहाई

**पूर्व—** ग्राम अरकण्डी की पूर्वी सीमा से दक्षिण की ओर पुलघटा तक.

**दक्षिण—**पुलघटा से अरकण्डी ग्राम की सीमा के आगे कोलहाई ग्राम की पश्चिमी-दक्षिणी कोने की सीमा तक.

**पश्चिम—**ग्राम कोलहाई की दक्षिणी पश्चिमी कोने की सीमा से उत्तर की ओर अरकण्डी ग्राम की पश्चिमी सीमा तक.

**उत्तर—** अरकण्डी ग्राम की पश्चिमी कोने की सीमा से उत्तर की ओर अरकण्डी ग्राम के पूर्वी कोने की सीमा तक.

## वार्ड क्रमांक 02—मदन मोहन मालवीय वार्ड

सम्मिलित क्षेत्र—उदयपुर

**पूर्व—** पुलघटा से दक्षिण की ओर उदयपुर ग्राम के पूर्वी-दक्षिणी कोने की सीमा तक.

**दक्षिण—**उदयपुर ग्राम के पूर्वी-दक्षिणी कोने की सीमा से पश्चिम की ओर उदयपुर ग्राम पश्चिमी, दक्षिणी कोने की सीमा तक.

**पश्चिम—**उदयपुर ग्राम के पश्चिमी-दक्षिणी कोने की सीमा से उत्तर की ओर उदयपुर कोलहाई की सीमा होते हुए उदयपुर ग्राम की उत्तरी पश्चिमी कोने की सीमा तक.

**उत्तर—** उदयपुर ग्राम की उत्तरी-पश्चिमी कोने की सीमा से पूर्व की ओर उदयपुर अरकण्डी की सीमा रेखा होते हुये पुलघटा तक.

## वार्ड क्रमांक 03—गोलामठ वार्ड

सम्मिलित क्षेत्र—बड़ा अखाड़ा, हनुमान टोला, गोलामठ क्षेत्र, किला, मदार छल्ला

**पूर्व—** मानपुर रोड नहर पुलिया से दक्षिण की ओर किला क्षेत्र को सम्मिलित करते हुये विष्णु सागर तालाब की पश्चिमी मेड़ से दक्षिण की ओर बड़ा अखाड़ा तालाब की पूर्वी मेड़ सीमा से मैहर पटेहरा सीमा की पूर्वी दक्षिणी कोना तक.

**दक्षिण—**मैहर पटेहरा सीमा की पूर्वी दक्षिणी कोने से पश्चिमी की ओर उदयपुर रोड तक.

**पश्चिम—**उदयपुर रोड से उत्तर की ओर लिलजी नदी के किनारे-किनारे पुलघटा तक.

**उत्तर—** पुलघटा से लिलजी नदी के किनारे-किनारे गोलामठ मंदिर के पीछे का भाग सम्मिलित करते हुये नहर के किनारे-किनारे पूर्व की ओर मानपुर रोड नहर के ऊपर निर्मित पुलिया तक.

## वार्ड क्रमांक 04—बल्लभ भाई पटेल वार्ड

सम्मिलित क्षेत्र—पटेहरा, अमड़ा, हरदुआ

**पूर्व—** उत्तरी पूर्वी कोने पर निर्मित लक्ष्मणदास सिन्धी के मकान से प्रारंभ कर दक्षिण की ओर पटेहरा एवं हरदुआ की पूर्वी सीमा रेखा होते हुये हरदुआ ग्राम के पूर्वी-दक्षिणी कोने की सीमा तक.

**दक्षिण—**हरदुआ की पूर्वी-दक्षिणी कोने की सीमा से पश्चिम की ओर हरदुआ एवं अमड़ा की दक्षिणी सीमा होते हुए अमड़ा के पश्चिमी दक्षिणी कोने की सीमा तक.

**पश्चिम—**अमड़ा ग्राम की पश्चिमी-दक्षिणी सीमा से उत्तर की ओर अमड़ा ग्राम के उत्तरी-पश्चिमी सीमा तक.

**उत्तर—** अमड़ा ग्राम की उत्तरी-पश्चिमी कोने की सीमा से पूर्व की ओर उदयपुर, अमड़ा को सम्मिलित कर ग्राम पटेहरा के मध्य भाग वाली रोड होते हुये एन. एच.-7 उत्तरी-पूर्वी कोने पर निर्मित मकान लक्ष्मणदास सिन्धी के मकान तक.

## वार्ड क्रमांक 05—बाबा अलाउद्दीन वार्ड

सम्मिलित क्षेत्र—एन. एच.-7 कटनी रोड, शारदा कालोनी, सबसेना कालोनी, स्टेडियम, शारदापुरी कालोनी, पटेहरा का आंशिक भाग.

**पूर्व—** बाबा अलाउद्दीन तिराहा से दक्षिण की ओर जेल परिसर, जैन पेट्रोल पम्प से होते हुये दक्षिण की ओर कटनी रोड एन. एच.-7 कटनी रोड, शारदा कालोनी से आगे बारात घर तक.

**दक्षिण**—एन. एच.-7 कटनी रोड पर पूर्वी दक्षिणी कोने पर निर्मित बारात घर से पश्चिम की ओर बलराम जग्यासी का मकान होते हुये पटहेरा ग्राम का आंशिक भाग सम्मिलित कर सक्सेना कालोनी, रमेश प्रजापति की कालोनी का क्षेत्र.

**पश्चिम**—पटहेरा ग्राम की उपरोक्त आंशिक भाग के दक्षिण पश्चिमी कोने से उत्तर की ओर शारदापुरी कालोनी (हाउसिंग बोर्ड) शामिल कर नगरपालिका भवन देवी जी रोड तक.

**उत्तर**— देवीजी रोड नगरपालिका से पूर्व की ओर बी. टी. आई. कन्या शाला होते हुये बाबा अलाउद्दीन तिराहा तक.

**वार्ड क्रमांक 06—चंडीदेवी वार्ड**

**सम्मिलित क्षेत्र**—बरगद क्षेत्र, सब्जी मण्डी क्षेत्र, रेस्ट हाउस, चंडी देवी उत्कृष्ट बालक विद्यालय क्षेत्र.

**पूर्व**— पूर्व दरवाजा से दक्षिण की ओर रामाधार पाण्डेय के मकान से दक्षिण की ओर रोड पार कर पुरानी नगरपालिका से पूर्व की ओर सक्सेना मकान चंडीदेवी मंदिर से विपिन पाण्डेय के मकान तक.

**दक्षिण**—विपिन पाण्डेय के मकान से पश्चिम की ओर रेस्ट हाउस, आदिवासी छात्रावास, उत्कृष्ट बालक विद्यालय के पश्चिमी दक्षिणी कोने तक.

**पश्चिम**—उत्कृष्ट बालक विद्यालय के पश्चिमी दक्षिणी कोने से उत्तर की ओर दामोदर सैनी के मकान के आगे रोड पार कर अग्रसेन तिराहा से उत्तर की ओर दक्षिणी दरवाजा तक.

**उत्तर**— दक्षिण दरवाजा से पूर्व की ओर शहर पनाह के बाहर का क्षेत्र सम्मिलित कर शिक्षा गारंटी शाला नगरपालिका बारात घर से पूर्व दरवाजा तक.

**वार्ड क्रमांक 07—जवाहरलाल नेहरू वार्ड**

**सम्मिलित क्षेत्र**—मलियान, चिकान, सिंगरहान, सिविल लाइन शिक्षक कालोनी.

**पूर्व**— रंगलाल चौक इन्दारा से दक्षिण की ओर दक्षिण दरवाजा पारकर एस. डी. ओ. पी. बंगला तक.

**दक्षिण**—एस. डी. ओ. पी. बंगला से दक्षिण की ओर देवीजी रोड का उत्तरी भाग सम्मिलित कर विष्णु सागर तालाब की दक्षिणी पश्चिमी कोने तक.

**पश्चिम**—विष्णु सागर तालाब की दक्षिणी पश्चिमी कोने से उत्तर की ओर तालाब के किनारे-किनारे छोटी मंदिर से सड़क पार कर उत्तर की ओर असरफ अली के मकान तक

**उत्तर**— असरफ अली के मकान से पूर्व की ओर रंगलाल चौक इन्दारा तक.

**वार्ड क्रमांक 08—मौलाना अब्दुल कलाम वार्ड**

**सम्मिलित क्षेत्र**—छिपहटी, ईदगाह, रवि गोदाम

**पूर्व**— उत्तर दरवाजा के पश्चिम की ओर स्व. श्री जगदीश लोहार के मकान से होते हुये, कुंआ, छोटी मंदिर होते हुये श्री संतोष तिवारी वकील का मकान स्व. श्री लपंटा धोबी के मकान होते हुये दक्षिण की ओर गुलफाम का मकान होते हुये वसीम मोहम्मद के मकान से रोड क्रॉस कर रफीक लाइन मैन के मकान से कमलाकान्त शास्त्री के मकान एवं समीमुद्दी के मकान होते हुये मकसूद अली के मकान तक.

**दक्षिण**—श्री मकसूद अली के मकान से पश्चिम की ओर किला के सामने श्री भुल्लू के मकान तक.

**पश्चिम**—श्री भुल्लू के मकान से उत्तर की ओर नहर पुलिया ईदगाह के पीछे लिलजी नदी तक.

**उत्तर**— ईदगाह के पीछे लिलजी नदी के किनारे-किनारे मानपुर रोड बड़ी पुलिया से पूर्व की ओर जाने वाली रोड से नहर पार कर शहर पनाह की बाउण्ड्री के अन्दर छिपहटी क्षेत्र, भीतर टोला कोलान, संतोष तिवारी वकील के मकान से होते हुये उत्तर दरवाजा स्व. श्री जगदीश लोहार के मकान तक.

**वार्ड क्रमांक 09—महाराणा प्रताप वार्ड**

**सम्मिलित क्षेत्र**—मानपुर एवं मैहर नगर उत्तर दरवाजा का उत्तरी भाग.

**पूर्व**— ग्राम मानपुर का उत्तरी पूर्वी कोना की सीमा रेखा से दक्षिण की ओर श्मशान घाट की पूर्वी सीमा सम्मिलित कर मैहर नगर की बसौरन, हरिजन बस्ती सम्मिलित करते हुये उत्तर दरवाजा तक.

**दक्षिण**—उत्तर दरवाजा से पश्चिम की ओर नहर के किनारे-किनारे मानपुर पुलिया तक.

**पश्चिम**—मानपुर पुलिया से कब्रिस्तान क्षेत्र सहित मानपुर ग्राम की पश्चिमी सीमा होते हुये ग्राम मानपुर के पश्चिमी-उत्तर कोने की सीमा तक.

**उत्तर**— ग्राम मानपुर के पश्चिमी-उत्तर कोने की सीमा से पूर्व की ओर मानपुर सीमा रेखा होते हुए मानपुर ग्राम के उत्तरी-पूर्वी कोने तक.

**वार्ड क्रमांक 10—डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड**

**सम्मिलित क्षेत्र—पाण्डेय टोला, खटोलन टोला, धोबियान.**

**पूर्व**— प्रेमचंद्र पाण्डेय के मकान से पश्चिम की ओर गुलाब चंद्र गुप्ता की चक्की तक.

**दक्षिण**—गुलाब चंद्र गुप्ता की चक्की से गोपाल सिंह के मकान तक.

**पश्चिम**—गोपाल सिंह के मकान से उत्तर की ओर स्व. श्री छुट्टू खां डायवर के मकान रोड क्रॉस कर गुलाब पेन्टर के मकान होते हुये कल्लू महाराज के मकान से प्रकाश पाण्डेय के मकान होते हुए रामलोचन पाण्डेय के मकान होते हुये महमूद खां का मकान होते हुये उत्तर की ओर पंकज टेलर के मकान से पूर्व की ओर इकबाल टेलर के मकान तक.

**उत्तर**— पंकज टेलर के मकान से पूर्व की ओर जवाहर लाल का मकान होते हुये उत्तर दरवाजा का मुख्य मार्ग से दक्षिण की ओर मंगलिया की चक्की से पूर्व की ओर बड़इयान टोला शामिल कर प्रेम चंद्र पाण्डेय के मकान तक.

**वार्ड क्रमांक 11—शीतला देवी वार्ड**

**सम्मिलित क्षेत्र—बिनैका, घोसियान, खुड़खुड़दास मंदिर, छोटी मस्जिद क्षेत्र**

**पूर्व**— बिनैका तालाब का पूर्वी-उत्तरी कोना दीन मोहम्मद के मकान से दक्षिण की ओर खुड़खुड़दास मंदिर तक.

**दक्षिण**—खुड़खुड़दास मंदिर से पश्चिम की ओर रंगलाल के मकान तक.

**पश्चिम**—रंगलाल के मकान से उत्तर की ओर संतोष वर्मा वकील के मकान से होते हुये आनन्द वर्मा के मकान से होते हुये प्रेमलाल सेन के मकान से उत्तर की ओर उत्तर दरवाजा तक.

**उत्तर**— उत्तर दरवाजा से पूर्व की ओर शहर पनाह के अन्दर बिनैका तालाब की उत्तरी मेढ़ होकर दीन मोहम्मद के मकान तक.

**वार्ड क्रमांक 12—सुभाष चंद्र बोस वार्ड**

**सम्मिलित क्षेत्र—चौरसिया मोहल्ला, बेल्लरान**

**पूर्व**— पूर्व दरवाजा से दक्षिण की ओर शहर पनाह बाउण्ड्री के अंदर श्रीमती लक्ष्मी चौरसिया के मकान तक.

**दक्षिण**—श्रीमती लक्ष्मी चौरसिया के मकान से पश्चिम की ओर शहर पनाह के अन्दर-अन्दर नागा बाबा मंदिर होते हुये दक्षिण दरवाजा तक.

**पश्चिम**—दक्षिण दरवाजा से उत्तर की ओर यासीन टेलर के मकान तक.

**उत्तर**— यासीन टेलर के मकान के पूर्व की ओर पूर्व दरवाजा तक.

**वार्ड क्रमांक 13—राजीव गांधी वार्ड**

**सम्मिलित क्षेत्र—चौरसिया मोहल्ला, सतना रोड का पश्चिमी भाग, ज्ञान, विहार विद्यालय क्षेत्र.**

**पूर्व**— सतना नाका बाबा तालाब का पूर्वी-उत्तरी, कोना से दक्षिण की ओर शारदा टाकीज तक.

**दक्षिण**—शारदा टाकीज से पश्चिम की ओर गंगा सोनी के मकान तक.

**पश्चिम**—गंगा सोनी के मकान से उत्तर की ओर छोटी मस्जिद के आगे शहर पनाह के बाउण्ड्री के बाहर सरपहिया तालाब से पश्चिम की ओर शहर पनाह के बाहर-बाहर उत्तर दरवाजा तक.

**उत्तर**— उत्तर दरवाजा से उत्तर-पूर्व की ओर श्मशान बाउण्ड्री का पूर्वी भाग बाबा तालाब सम्मिलित कर सतना नाका तक.

**वार्ड क्रमांक 14—महात्मा गांधी वार्ड****सम्मिलित क्षेत्र—सराय, चौपड़ा कालोनी का क्षेत्र**

**पूर्व—** बटललाल सोनी के मकान से दक्षिण की ओर सराय मोहल्ला होते हुये पश्चिमी भवनों को लेकर कुसुम बाई उपाध्याय का मकान होकर शंकर जी मंदिर होते हुये दक्षिण की ओर श्री कृष्ण द्विवेदी के मकान हेतु हुये गोपी प्रसाद कुशवाहा के मकान होते हुये हरदुआ ग्राम की सीमा तक.

**दक्षिण—**चौपड़ा कालोनी हरदुआ सीमा से पश्चिम की ओर एन. एच.-7 कटनी रोड तक.

**पश्चिम—**एन. एच.-7 कटनी रोड हरदुआ सीमा से उत्तर की ओर जनपद कार्यालय पानी की टंकी से होते हुये जेल तिराहा नगरपालिका की दुकानों तक.

**उत्तर—** जेल तिराहा नगरपालिका की दुकानों से पूर्व की ओर पवन चौपड़ा के मकान के आगे बटललाल सोनी के मकान तक.

**वार्ड क्रमांक 15—गुरूनानक वार्ड****सम्मिलित क्षेत्र—स्टेशन क्षेत्र, कपड़ियान, डी. एन. बोस कालोनी, रेल्वे कालोनी, कचेहरी क्षेत्र, सण्डरसन परिसर एवं सिन्धी कालोनी.**

**पूर्व—** एन. एच.-7 रीवा रोड पर बी. के. पाण्डेय के मकान से दक्षिण की ओर तहसील कार्यालय के पीछे का भाग सम्मिलित कर सरलानगर रोड, हरनामपुर पुलिया तक.

**दक्षिण—**हरनामपुर पुलिया से उत्तर की ओर कचेहरी गेट के पश्चिम की ओर हीराकुन्ज धर्मशाला होते हुये रेल्वे स्टेशन पार कर रेल्वे पटरी के किनारे-किनारे दक्षिण की ओर राय लाइम कम्पनी के भट्टा से पश्चिम की ओर हरदुआ सीमा तक.

**पश्चिम—**हरदुआ ग्राम की दक्षिणी पूर्वी कोने की सीमा से उत्तर की ओर सुरेश विश्वकर्मा के मकान से टी. व्ही. टावर का क्षेत्र आदर्श रेलवे कालोनी डी. एन. बोस कालोनी, सम्मिलित कर उत्तर की ओर पिंकी आटो मोबाइल्स की दुकान तक.

**उत्तर—** पिंकी आटो मोबाइल्स की दुकान के पूर्व की ओर बी. ई. ओ. कार्यालय के आगे रेल्वे ओव्हर ब्रिज पार कर रीवा रोड पर बी. के पाण्डेय के मकान तक.

**वार्ड क्रमांक 16—चंद्रशेखर आजाद वार्ड****सम्मिलित क्षेत्र—जुलाहन टोला, कटरा बाजार का क्षेत्र**

**पूर्व—** रेल्वे पुलिया देवधरा मार्ग वाली से दक्षिण की ओर रेल्वे ओव्हर ब्रिज फाटक तक.

**दक्षिण—**रेल्वे ओव्हर ब्रिज फाटक से पश्चिम की ओर स्व. श्री नत्थूलाल अग्रवाल के मकान तक.

**पश्चिम—**स्व. श्री नत्थूलाल अग्रवाल के मकान से उत्तर की ओर विवेकानन्द विद्यालय होते हुये प्रकाश बुक स्टोर घंटाघर तक.

**उत्तर—** घंटाघर में प्रकाश बुक स्टोर की दुकान से पूर्व की ओर स्व. श्री बलदेव प्रसाद अग्रवाल के मकान से होते हुये रोड क्रॉस कर पूर्व की ओर राजकुमार शर्मा के मकान होते हुये स्व. श्री रामदुलारे गुप्ता का मकान, राजू अग्रवाल का मकान होकर बंशी सिन्धी का मकान, मंगल सिन्धी के मकान से पूर्व की ओर गिरजा तिवारी के मकान से रोड क्रॉस कर दीपक बारी का मकान होते हुये रेल्वे पुलिया तक.

**वार्ड क्रमांक 17—लालबहादुर शास्त्री वार्ड****सम्मिलित क्षेत्र—कटरा बाजार क्षेत्र, गल्ला मण्डी, तमेरन मोहल्ला गांधी विद्यालय का क्षेत्र.**

**पूर्व—** स्व. श्री घनश्याम दास ताम्रकार के मकान से दक्षिण की ओर लुंगा हलवाई का बाड़ा होते हुये केशव प्रसाद चौंसिया के मकान तक.

**दक्षिण—**केशव प्रसाद चौंसिया के मकान से पश्चिम की ओर गल्ला मण्डी राम मंदिर होते हुये घंटाघर के पास नानकराम सिन्धी की दुकान तक.

**पश्चिम—**नानकराम सिन्धी के दुकान से उत्तर की ओर पुरुषोत्तम सोनी के मकान, शारदा कमेटी का भवन होते हुये सतना चूड़ी वाले की दुकान तक.

**उत्तर—** सतना रोड चूड़ी वाले की दुकान से पूर्व की ओर मनोज दीक्षित का मकान होते हुये स्व. श्री घनश्याम ताम्रकार के मकान तक.

## वार्ड क्रमांक 18—डॉ. अम्बेडकर वार्ड

सम्मिलित क्षेत्र—करियापानी, कछियान, गरबधा तालाब क्षेत्र

पूर्व— श्री अशोक उपाध्याय के मकान से दक्षिण की ओर रेल्वे पटरी के किनारे-किनारे देवधरा मार्ग रेल्वे पुलिया तक

दक्षिण—रेल्वे पुलिया से पश्चिम की ओर गरबधा तालाब से गोविन्द के मकान व हुकुमचंद गुप्ता के मकान से होते हुये पश्चिम की ओर सतना रोड सोसायटी तक.

पश्चिम—सतना रोड सोसायटी से उत्तर की ओर मंगल भवन (सतना रोड) तक

उत्तर— मंगल भवन से डॉ. ए. के. श्रीवास्तव के मकान से देवी सिंह का मकान से पूर्व की ओर शंकर रविकर के मकान से अशोक उपाध्याय के मकान तक.

## वार्ड क्रमांक 19—डॉ. राधा कृष्णन वार्ड

सम्मिलित क्षेत्र—देवधरा, शिवम नगर, कचलोहा

पूर्व— ट्राम लाइन से दक्षिण की ओर एन. एच.-7 रीवा रोड तक.

दक्षिण—एन. एच.-7 रीवा रोड, रीवा नाका के पास से पश्चिम की ओर रेल्वे फाटक रेल्वे ओव्हर ब्रिज तक.

पश्चिम—रेल्वे फाटक रेल्वे ओव्हर ब्रिज से उत्तर की ओर श्मशान तलैया की उत्तरी मेड़ घुरपुरा सीमा तक.

उत्तर— श्मशान तलैया के पास आउटर सिग्नल से पूर्व की ओर ट्राम लाइन तक.

## वार्ड क्रमांक 20—इन्दिरा गांधी वार्ड

सम्मिलित क्षेत्र—घुरपुरा

पूर्व— घुरपुरा बस्ती के उत्तर पूर्व कोने पर रेल्वे लाइन पुलिया से दक्षिण की ओर उमरी पैला रेल्वे फाटक तक.

दक्षिण—उमरी पैला रेल्वे फाटक से पश्चिमी ओर धनू चौधरी के मकान से होते हुये मड़फा के आगे हरीबाबू का मकान होते हुये श्री सत्यभान पटेल के मकान तक.

पश्चिम—श्री सत्यभान पटेल के मकान से उत्तरी ओर नहर पार कर उमरी पैला ग्राम की सीमा तक.

उत्तर— उमरी पैला ग्राम की सीमा सतना रोड के पूर्वी ओर घुरपुरा बस्ती के उत्तर पूर्व कोने पर रेल्वे लाइन पुलिया तक.

## वार्ड क्रमांक 21—स्वामी नीलकण्ठ वार्ड

सम्मिलित क्षेत्र—उमरी पैला ( बल्लभनगर , सरस्वती नगर ) बैला खास

पूर्व— ग्राम उमरी पैला की पूर्वी-उत्तरी कोने से दक्षिण की ओर उमरी पैला की सीमा रेखा होते हुये उमरी पैरा ग्राम के पूर्वी-दक्षिणी कोने तक.

दक्षिण—उमरी पैला ग्राम के पूर्वी-दक्षिणी कोने से पश्चिम की ओर उमरी पैला ग्राम की सीमा रेखा होते हुये सरस्वती नगर बल्लभ नगर की पश्चिमी-दक्षिणी कोने की सीमा लिलजी नदी तक.

पश्चिम—बल्लभ नगर की पश्चिमी-दक्षिणी कोने की सीमा से उत्तर की ओर लिलजी नदी के किनारे-किनारे बल्लभ भवन की उत्तरी-पश्चिमी कोने की सीमा तक.

उत्तर— बल्लभ नगर की उत्तरी-पश्चिमी कोने की सीमा से पूर्व की ओर लिलजी नदी के किनारे-किनारे सतना रोड क्रास कर पूर्व की ओर रेल्वे लाइन के आगे ग्राम बैला खास की उत्तरी सीमा रेखा से होते ग्राम उमरी पैला की पूर्वी-उत्तरी कोने की सीमा तक.

## वार्ड क्रमांक 22—भगत सिंह वार्ड

सम्मिलित क्षेत्र—कटिया, तिघरा

पूर्व— ग्राम तिघरा के उत्तरी-पूर्वी कोने की सीमा से दक्षिण की ओर तिघरा एवं कटिया की सीमा रेखा होते हुये ग्राम कटिया के पूर्वी-दक्षिणी कोने की सीमा तक.

दक्षिण—कटिया ग्राम की पूर्वी एवं दक्षिणी कोने की सीमा रेखा से पश्चिम की ओर कटिया की सीमा सम्मिलित करते हुये ग्राम कटिया के दक्षिणी पश्चिमी कोने तक.

**पश्चिम**—ग्राम कटिया के दक्षिणी-पश्चिमी कोने की सीमा से उत्तर की ओर कटिया एवं तिघरा की सीमा रेखा होते हुये तिघरा ग्राम के उत्तरी-पश्चिमी कोने तक.

**उत्तर**— तिघरा ग्राम के उत्तरी-पश्चिमी कोने से पूर्व की ओर तिघरा ग्राम के पूर्वी-उत्तरी कोने तक.

**वार्ड क्रमांक 23—टमस वार्ड**

**सम्मिलित क्षेत्र—परसोखा, लखनपुर, लखवार, अमिलिया, गिरगिटा**

**पूर्व**— ग्राम लखनपुर की उत्तरी-पूर्वी कोना बड़ी पुल से दक्षिण की ओर लखनपुर, लखवार तथा अमिलिया एवं गिरगिटा की पूर्वी सीमा रेखा होते हुये ग्राम गिरगिटा के पूर्वी-दक्षिणी कोने की सीमा तक.

**दक्षिण**—ग्राम गिरगिटा के पूर्वी-दक्षिणी कोने की सीमा से पश्चिम की ओर गिरगिटा ग्राम की दक्षिणी सीमा होते हुये ग्राम गिरगिटा के पश्चिमी-दक्षिणी कोने तक.

**पश्चिम**—गिरगिटा ग्राम के दक्षिणी-पश्चिमी कोने की सीमा से उत्तर की ओर गिरगिटा, अमिलिया, लखवार एवं परसोखा ग्राम की पश्चिमी सीमा होते हुये परसोखा ग्राम की उत्तरी-पश्चिमी कोने की सीमा तक.

**उत्तर**— ग्राम परसोखा की उत्तरी-पश्चिमी कोने की सीमा से पूर्व की ओर परसोखा ग्राम एवं लखनपुर की सीमा रेखा होते हुये लखनपुर ग्राम की उत्तरी-पूर्वी कोने की बड़ी पुल तक.

**वार्ड क्रमांक 24—गोपाल बाग वार्ड**

**सम्मिलित क्षेत्र—हरनामपुर सम्पूर्ण ग्राम एवं रेल्वे स्टेशन का पूर्वी भाग धनवाही रोड के दक्षिण, पश्चिम.**

**पूर्व**— बम महाराज की आराजी, पूर्वी बाउण्डी को कोने से दक्षिण की ओर हरनामपुर की सीमा रेखा होते हुये पूर्वी-दक्षिणी कोने तक.

**दक्षिण**—हरनामपुर ग्राम की पूर्वी-दक्षिणी कोने की सीमा से पश्चिम की ओर नव निर्मित कालोनी विजय चौपड़ा का भट्टा होते हुये रेल्वे लाइन तक.

**पश्चिम**—रेल्वे लाइन के किनारे, विजय चौपड़ा के भट्टे से पूर्व की ओर कानस्कर साहब के मकान तक.

**उत्तर**— कानस्कर साहब के मकान से पूर्व की ओर बम महाराज के बाउण्डी के पूर्वी-उत्तरी कोने तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**संतोष मिश्र, कलेक्टर**

सतना, दिनांक 4 जून 2015

क्र.-परिसीमन सतना.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक परिसीमन-सतना-2015, दिनांक 4 जून 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**संतोष मिश्र, कलेक्टर**

Satna, the 4<sup>th</sup> June 2015

S. No. 174 -2015.—In exercise of the powers conferred by the Department of Urban Administration and Development, Madhya Pradesh Government vide notification dated 24 February 2004. 4-520-Eighteen-3-2004, I, Collector, Satna District do hereby determine the delimitation of Wards of Maihar Municipal Council under Section 29 sub-section (1) of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) as per the schedule given below :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Wards No. s (2)	Name of Wards (3)
01	1	Sharda Devi Ward
02	2	Madan Mohan Malviya Ward



(1)	(2)	(3)
03	3	Golamath Ward
04	4	Ballabh Bhai Patel Ward
05	5	Baba Allauddin Ward
06	6	Chandi Devi Ward
07	7	Jawahar Lal Nehru Ward
08	8	Maulana Abdul Kalam Ward
09	9	Maharana Pratap Ward
10	10	Dr. Rajendra Prasad Ward
11	11	Sheetla Devi Ward
12	12	Subhash Chandra Bose Ward
13	13	Rajeev Gandhi Ward
14	14	Mahatma Gandhi Ward
15	15	Gurunanak Ward
16	16	Chandrashekhhar Azad Ward
17	17	Lalbahadur Shastri Ward
18	18	Dr. Ambedkar Ward
19	19	Dr. Radhakrishnan Ward
20	20	Indira Gandhi Ward
21	21	Swami Neelkanth Ward
22	22	Bhagat Singh Ward
23	23	Tamas Ward
24	24	Gopal Bagh Ward

#### Detail Population of Wards

Sl. No. (1)	Ward No. (2)	Population of Scheduled Caste (3)	Population of Scheduled Tribes (4)	Total Population (5)
01	1	407	132	2917
02	2	1311	13	3119
03	3	287	701	1915
04	4	882	313	2905
05	5	91	102	2186
06	6	142	32	2418
07	7	184	18	2682
08	8	25	81	2397
09	9	1228	858	2978
10	10	58	00	2465
11	11	22	00	2437
12	12	436	02	2453
13	13	22	10	2043
14	14	433	320	2446
15	15	412	326	2982
16	16	16	11	2339
17	17	42	28	2026
18	18	907	46	2366
19	19	205	243	2977
20	20	1302	136	2543
21	21	580	114	3142
22	22	32	251	2343
23	23	602	1064	2519
24	24	456	66	2095
	Total	10082	4867	60693

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
SANTOSH MISHRA, Collector.

### Details of Wards Demarcation

#### Ward No. 01—Sharda Devi Ward

Area Included—Arkandi, Kolhai

**East**— From eastern limit of village Arkandi towards south upto Pulghata.

**South**—From Pulghata limit of Aarkandi to west-south corner of Kolhai village.

**West**— From south-west corner of kolhai village towards north upto west limit of Arkandi village.

**North**—From west corner limit of Arkandi towards north up to eastern corner of Arkandi village.

#### Ward No. 02—Madan Mohan Malviya Ward

Area Included—Udaypur

**East**— From Pulghata towards south upto east-south corner of village Udaypur.

**South**—From east-south corner of village Udaypur towards west upto south corner of village Udaypur limit.

**West**— From west-south corner of village Udaypur towards north via including Udaypur-Kolhai outer limit upto north-west corner of village Udaypur.

**North**—From north-west corner of village Udaypur towards east via Udaypur-Arkandi outer limit upto Pulghata.

#### Ward No. 03—Golamath Ward

Area Included—Bada Akhada Hanuman Tola, Golamath, Kila, Madar Challa.

**East**— From Manpur canal culvert towards south included kila area from west medh of Visnu Sagar Talab towards south-east medh of Bada-Akhada talab upto east-south corner of Patehara village.

**South**—From east-south corner of Patehara village towards west up to Udaypur road.

**West**— From Udaypur road towards north via Lilgi river corner upto Pulghata.

**North**—From Pulghata via corner of Lilji river included behind area of Golamath temple via canal corner towards east up to Manpur road canal culvert.

#### Ward No. 04—Ballabh Bhai Patel Ward

Area Included—Patehra, Amada, Hardua

**East**— From north, east corner of village Patehra Near house of Lakshman Das Sindhi towards south via Patehra hardua east limit upto east-south corner of hardua village.

**South**—From east-south corner of Hardua village towards west-south limit of Hardua and Amada up to west-south corner of Amada village.

**West**— From west-south corner of Amada village towards north upto north-west limit of village Amada.

**North**—From north west corner of village Amada towards east via Amada, Patehra limit from mid road upto N.H.-7 north-east corner near house of Lakshman Das Sindhi.

#### Ward No. 05—Baba Allauddin Ward

Area Included—N. H.-7 Katni road  
Sharda Colony, Saxena Colony, Stadium, Shardapuri  
Colony & Partial Part of Patehra.

**East**— From Bada Allauddin Tiraha towards south, Jail Parishar, Jain Petrol Pump via N. H.-7 Katni road onwards Sharda Colony towards south upto Barat Ghar.

**South**—From N.H.-7 Barat Ghar on east south corner towards west via house of Balram Jagyasi including partial area of village Patehra, Sexena Colony and area of Ramesh Prajapati colony.

**West**— From south-west corner of partial portion of village patehra towards north including Shardapuri Colony (Housing Board) upto Devi Ji road office building of Municipal Council.

**North**—From west-north corner at Devi Ji road Near Municipal Council office building towards east via BTI, Girls School upto Baba Allauddin Tiraha.

**Ward No. 06—Chandi Devi Ward****Area Included—Bargad Area, Sabji Mandi area, Rest House, Chandi Devi, Boys School.**

- East—** From East gate towards south via House of Ramadhar Pandey across road up to old Nagar Palika towards east Saxena Building, Chandi Devi temple upto house of Vipin Pandey.
- South—** From house of Vipin Pandey towards west included area Rest House, Adivashi Hostel upto west south corner of Boys School.
- West—** From west south corner of Boys School towards north Damodar Saini House across road Agrasen Tiraha towards north up to South Gate.
- North—** From South Gate towards east included outer area of Sahar Panah, Shiksha Guarantee School, Nagarpalika Marriage Hall up to East Gate.

**Ward No. 07—Jawahar Lal Nehru Ward****Area Included—Maliyan, Chikan, Singrhan, Civil Line, Teacher Colony.**

- East—** From Ranglal Chauk well towards south via South Gate upto S. D. O. P. Banglow.
- South—** From S. D. O. P. Banglow towards west included north area of Devi Ji road south-west corner of Vishnu Sagar talab.
- West—** From south-west corner of Vishnu Sagar talab towards north across road upto via small temple upto house of Asraf Ali.
- North—** From house of Asraf Ali towards east upto Ranglal Chauk well.

**Ward No. 08—Maulana Addul Kalan Ward****Area Included—Chipahti, Eid Gah, Ravi Godown.**

- East—** From north gate towards west via house of Late Shri Jagdish Lohar, open well, small temple, house of Santosh Tiwari (Advocate), Late Shri Lapanta Dhobi towards south house of Gulfam, Washim Mohammad via road cross, house of Rafiq Lineman, Kamlakant Shastri & Samimuddin upto house of Makshood Ali.
- South—** From house of Maqsood Ali towards west upto house of Mullu.
- West—** From house of Mullu towards north including canal culvert behind of Eid Gah upto Lilji River.
- North—** From behind of Eidgah via corner of Lilji river, Manpur road culvert towards east across canal including interior area of Shahar Panah boundary, Chipahati Area, Bhitara Tola Kolan onwards house of Santosh Tiwari, Advocate upto north gate near house of Jagdish Lohar.

**Ward No. 09—Maharana Pratap Ward****Area Included—Manpur, North area of North Gate (Maihar)**

- East—** From north-east corner of Manpur village towards south including east limit of Samshan Ghat, Basoran Harijan basti upto North Gate.
- South—** From north gate towards west via canal upto manpur bridge.
- West—** From Manpur bridge including Kabristaan area via Manpur village west limit upto west north corner of Manpur village.
- North—** From west north corner of Manpur village towards east via Manpur limit up to north east corner of village Manpur.

**Ward No. 10—Dr. Rajendra Prasad Ward****Area Included—Pandey Tola, Khatolan Tola & Dhobiyan**

- East—** From house of Premchand Pandey towards south upto mill of Gulab Chand Gupta.
- South—** From mill of Gulab Chand Gupta towards west up to house of Gopal Singh.
- West—** From house of Gopal Singh towards north via Late Shri Chuttu Khan Driver across the road house of Gulab Panter, Kallu Maharaj, Prem Prakash pandey, Ramlochan Pandey, house of Mahmood Khan towards north house of Pankaj Tailor towards east upto house of Ikabal Tailor.

**North**—From house of Pankaj Tailor towards east via house of Jawaharlal Burman, main road of north gate towards south Mangaliya Chakki towards east including area of Badahiyan tola upto house of Prem Chand Pandey.

**Ward No. 11—Sheetala Devi Ward**

**Area Included**—Binaika, Ghosiyani Khud-Khud Das Mandir, Choti Maszid.

**East**— From east north corner of Binaika Talab house of Deen Mohammad towards south up to Khud-Khud das temple.

**South**—From Khud-Khud das Temple towards west upto house of Ranglal.

**West**— From House of Ranglal towards north via house of Advocate Santosh Verma, Anand Verma, Premal Sen towards north upto North Gate.

**North**—From north gate towards east including interior area of Binaika Talab, north medh up to house of Deen Mohammad.

**Ward No. 12—Subhash Chandra Bose Ward**

**Area Included**—Chaurasia Mohala Ward Beldaran

**East**— From East Gate towards south including interior area Sahar Panah up to house of Laxmi Chaurasia.

**South**—From house of Laxmi Chaurasia towards west including interior area Naga Baba Mandir upto South Gate.

**West**— From South Gate towards north upto house of Yasheen Talor.

**North**—From house of Yasheen Talor towards east up to East gate.

**Ward No. 13—Rajeev Gandhi Ward**

**Area Included**—Chaurasia Mohalla, Satna Road west part, Gyan Bihar School.

**East**— From Satna naka, Baba Talab north east corner towards south upto Sharda Talkies.

**South**—From Sharda Talkies towards west up to house of Ganga Soni.

**West**— From house of Ganga Soni towards north Choti Maszid, Sahar Panah outer area Sarpahiya Talab towards west up to Uttar darwaja.

**North**—From Uttar darwaja towards north east including east area of Samshan boundary Babatalab upto Satna Naka.

**Ward No. 14—Mahatma Gandhi Ward**

**Area Included**—Sarai, Chopra Colony.

**East**— From house of Batallal Soni towards south via Sarai Mohalla including west area house of Kushum Bai Upadhaya, Shiv Temple, house of Shri Krishna Dwivedi, Gopi Prasad Kushwaha upto east south corner of hardua village.

**South**—From east-south corner of hardua village towards west including area of Chopra Colony upto Katni road N. H.-7.

**West**— From N. H.-7 Katni road Hardua limit towards north via Block Office O. H. T. upto Jail Tiraha nagar Palika Shpps.

**North**—From Jail Tiraha nagar Palika Shops towards east house of Pawan Chopra onward upto house of Batallal Soni.

**Ward No. 15—Gurunanak Ward**

**Area Included**—Station area, Kapadiyan, D. N. Bose Colony Railway Colony, Kachari Area, Sunderson Parishar & Sindhi Colony.

**East**— N. H. -7 from north east corner house of B. K. Pandey towards south including behind area of Tehsil Office upto Sarla Nagar road Harnampur Culvert.

**South**—From Harnampur culvert towards north upto Kacheri Gate towards west via Heera Kunj Dharmshala across Railway Station via corner of Railway Track towards south Rai Line Company Bhatta towards west upto Hardua limit.

**West**— From south east corner of Hardua village towards north via house of Suresh Vishwakarma including T. V. Tower area, Adarsh Railway Colony, D. N. Bose colony towards north upto Pinky Automobiles shop.

**North**—From Pinky Automobile Shop towards east B. O. Office across Railway Bridge on Rewa road upto house of B. K. Pandey.

**Ward No. 16—Chandra Shekher Azad Ward**

**Area Included—Jalahan Tola, Katra Bazar area**

**East**— From Railway culvert Deodhara road towards south upto Railway Over Bridge Fatak.

**South**—From Railway Over Bridge Fatak towards west upto house of Late Shri Nathu Lal Agrawal.

**West**— From house of Late Shri Nathu Lal Agrawal towards north via Vivekanand School upto Prakash Book Store, Watch Tower.

**North**—From Watch tower, Prakash Book Stores of towards east via Late Shri Baldev Prasad Agrawal across road towards east house of Rajkumar Sharma, Late Shri Ram Dulare Gupta, Raju Agrawal, Banshi Sindhi, Mangal Sindhi towards east from house of Girija Tiwari across road house of Deepak Bari upto Railway culvert.

**Ward No. 17—Lal bahadur Shastri Ward**

**Area Included—Katra Bazar, Galla Mandi, Tameran Tola Area of Gandhi School.**

**East**— From house of Ghanshyam Das Tamrakar towards south via Lunga Halwai Bada upto house of Keshav Chaurasiya.

**South**—From house of Keshav Chaurasiya towards south via Galla Mandi, Ram Mandir upto Nanak Ram Sindhi shop near Ghantaghar.

**West**— From Nanak Ram Sindhi shop near Ghantaghar towards north via house of Purushotam Soni, Sharda Committee Building upto Satna Chudi Shop.

**North**—From Satna Chudi Shop at Satna road towards east via house of Manoj Dixit upto House of Late Shri Ghanshyam Tamrakar.

**Ward No. 18—Dr. Ambedkar Ward**

**Area Included—Kariya pani, Kachiyan, Garbadha Talab Area**

**East**— From house of Ashok Upadhaya towards south by corner of railway line upto Deodhara road Railway culvert.

**South**—From Railway towards west Garbadha Talab, house of Govind & Hukum Chand Gupta upto Satna Road Society.

**West**— From Satna Road Society towards north upto Mangal Bhawan.

**North**—From Mangal Bhawan via house of Dr. A. K. Shrivastava, house of Devi Singh towards east house Shankar Ravikar upto house of Ashok Upadhaya.

**Ward No. 19—Dr. Radha Krishnan Ward**

**Area Included—Deodhara, Shivam Nagar, Kachloha.**

**East**— Tram Line towards south upto N.H.-7 Rewa Road.

**South**—N. H.-7 Rewa road, Naka towards west upto Railway Fatak Railway Over Bridge.

**West**— From Railway Fatak, Railway Over Bridge towards north, Samshan Talaiya, north medh of Ghurpura limit.

**North**—From Samshan Taliya outer signal towards east upto tram Line.

**Ward No. 20—Indira Gandhi Ward****Area Included—Ghurpura**

- East—** From north east corner of Ghurpura basti Railway culvert towards south upto Umari Paila Railway Fatak.  
**South—** From Umari Paila Railway Fatak towards west including house of Dhannu Chaudhary, Madfa via house of Hari Babu upto house of Satvabhan Patel.  
**West—** From house of Satyabhan Patel towards north across canal up to limit of village Umaripaila  
**North—** From Umaripaila limit Satna road towards east Ghurpura Basti north east corner Railway line culvert.

**Ward No. 21—Swami Neelkhant Ward****Area Included—Umari Paila (Ballabh Nagar, Saraswati Nagar), Baila Khas.**

- East—** From east north corner of village Umari Paila towards south via Umari Paila border upto east south corner of village Umari Paila.  
**South—** From east south corner of village Umari Paila towards west via Umari Paila Border, Saraswari nagar, Ballabh Nagar, upto west south corner Lilji River.  
**West—** From west south corner Ballabh Nagar towards North via corner of Lilji River upto north west corner of Ballabh Nagar.  
**North—** From north west corner of Ballabh Nagar towards east via corner of Lilji River across Satna Road via north area of Baila Khas upto east north corner of Umari Paila.

**Ward No. 22—Bhagat Singh Ward****Area Included—Katiya, Tighara**

- East—** From north east corner of Tighara towards south via Tighara katiya Border upto east south corner of village Katiya.  
**South—** From east south corner of village Katiya towards west including Katiya area upto south west corner of village Katiya.  
**West—** From south west corner of village Katiya towards north including Katiya Tighra Border upto north west corner of village Tighra.  
**North—** From north west corner of village Tighra towards east upto east north corner of village Tighara.

**Ward No. 23—Tamas Ward****Area Included—Parsokha, Lakhanpur, Lakhwar, Amiliya, Girgita.**

- East—** From north east corner of village Lakhanpur near badi pul towards south including border of Lakhanpur, Lakhwar, Lakhwar, Amiliya & Girgita upto north south corner of village Girgita.  
**South—** From north south corner of village Girgita towards west including south border of Girgita upto west south corner of Girgita.  
**West—** From south west corner of village Girgita towards north via west border of village Girgita, Amilia, Lakhwar, Parsokha upto north west corner of village parsokha.  
**North—** From north west corner of village parsokha towards east via border at village Parsokha and Lakhanpur upto north east corner of village Lakhanpur Badi pul.

**Ward No. 24—Gopal bagh Ward****Area Included—Harnampur whole village east area of Railway station Located to south west of Dhanwahi Road.**

- East—** From east boundary of Bam Maharaj towards south via harnampur border upto east south corner of village Harnampur.  
**South—** From east south corner of village Harnampur towards west including area of New Colony Vijay Chopra's Bhatta upto Railway Line.  
**West—** From Vijay Chopra's Bhatta by corner Railway line towards east upto house of Kanaskar Sahab.  
**North—** From house of Kanaskar Sahab towards east upto east north corner of boundary of Bam Maharaj.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
 SANTOSH MISHRA, Collector.

## कार्यालय आयुक्त चंबल संभाग मुरैना (म0प्र0)

मुरैना, दिनांक जून 2015

क्र./परि.मु/2015 म.प्र.शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना क. 3-518-अठारह-3-2004 भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं शिवानंद दुबे, आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना एतद् द्वारा म.प्र.नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क. 23, सन् 1956) की धारा 10 (1) के अधीन नगर पालिक निगम मुरैना के वार्डों का विस्तार निम्नलिखित अनुसूची अनुसार अवधारित करता हूँ-

अनुसूची - 1			
गठित वार्डों के नाम			
वार्ड क्र0	वार्ड का नाम	वार्ड क्र0	वार्ड का नाम
01	रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड	25	उत्तमपुरा वार्ड
02	महाकाल वार्ड	26	डा.भीमराव अम्बेडकर वार्ड
03	संत कबीर वार्ड	27	हनुमान वार्ड
04	रफी अहमद किदवई वार्ड	28	इंदिरा गाँधी वार्ड
05	तात्याटोपे वार्ड	29	मनोहर वार्ड
06	लालबहादुर शास्त्री वार्ड	30	सरोजनी नायडू वार्ड
07	दाऊ जी वार्ड	31	स्वामी विवेकानंद वार्ड
08	डा.राजेन्द्रप्रसाद वार्ड	32	गणेश वार्ड
09	महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड	33	रामप्रसाद बिस्मिल वार्ड
10	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड	34	तुलसी वार्ड
11	सुखदेव वार्ड	35	शंकर वार्ड
12	पशुपति नाथ वार्ड	36	संजय गाँधी वार्ड
13	डा.राममनोहर लोहिया वार्ड	37	गुरुनानक वार्ड
14	महाराणा प्रताप वार्ड	38	महात्मा गाँधी वार्ड
15	महादेव वार्ड	39	गोपाल वार्ड
16	रामजानकी वार्ड	40	वनखण्डी वार्ड
17	जवाहरलाल नेहरू वार्ड	41	अटल बिहारी बाजपेयी वार्ड
18	महावीर वार्ड	42	लोकमान्य तिलक वार्ड
19	संत रविदास वार्ड	43	राजगुरु वार्ड
20	महात्मा ज्योतिबा फूले वार्ड	44	सरदार बल्लभ भाई पटेल वार्ड
21	संत विनोबा भावे वार्ड	45	चम्बल वार्ड
22	महामाया वार्ड	46	मयूरवन वार्ड
23	बिहारी जी वार्ड	47	शहीद भगत सिंह वार्ड
24	सुभाषचंद्र बोस वार्ड		

## अनुसूची-2

## परिसीमन पश्चात गठित वार्डों की निर्धारित चर्तुसीमा

## वार्ड क्रमांक 01—रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड

- उत्तर —राजस्व ग्राम इमलिया से मिलने वाली मुडियाखेडा की राजस्व सीमा  
 पूर्व —राजस्व ग्राम गंजरामपुर/जींगनी से मिलने वाली मुडियाखेडा की राजस्व सीमा  
 दक्षिण —राजस्व ग्राम बडोखर/जेबराखेडा से मिलने वाली मुडियाखेडा की राजस्व सीमा  
 पश्चिम —राजस्व ग्राम बडोखर से मिलने वाली मुडियाखेडा की राजस्व सीमा

## वार्ड क्रमांक 02— महाकाल वार्ड

- उत्तर —अंबाह बायपास पर इमलिया रोड के जोड से पूर्व की ओर चलकर अंबाह बायपास तिराहे के जोड से होकर राजस्व ग्राम मुडियाखेडा से मिलने वाली बडोखर की उत्तरी राजस्व सीमा  
 पूर्व —राजस्व ग्राम मुडियाखेडा से मिलने वाली बडोखर की पूर्वी राजस्व सीमा  
 दक्षिण —किशनपुर रोड पर पश्चिम की ओर चलकर नंदे का पुरा रोड के जोड तक  
 पश्चिम —नंदे का पुरा रोड से उत्तर की ओर चलकर नंदे का पुरा छोडते हुए और पूर्वी आबादी को शामिल करते हुये आगे बडोखर की आबादी को शामिल कर अंबाह रोड पर कैलाश छारी के मकान तक, यहां से अंबाह रोड क्रॉस कर पूर्व की आबादी लेते हुये बडोखर हनुमान रोड से होते हुए इमलिया रोड एवं अंबाह बायपास के जोड तक

## वार्ड क्रमांक 03—संत कबीर वार्ड

- उत्तर —क्वारी नदी  
 पूर्व —राजस्व ग्राम इमलिया से मिलने वाली लालौर की पूर्वी राजस्व सीमा।  
 दक्षिण —इंदिरा सरोवर के पीछे से एम0पी0ई0बी0 सब स्टेशन पर पहुंच कर पश्चिम की ओर चलकर उत्तरी आबादी शामिल करते हुये लालौर रोड पर कन्हैया डण्डौतिया के कुये से दक्षिण की ओर मुडकर गिराज डण्डौतिया की गली के पास कुये तक वहाँ से गोटेनगर व उत्तमपुरा के पीछे से होकर रेल्वे लाईन पर उत्तमपुरा पुलिया तक  
 पश्चिम —दिल्ली मुंबई मुख्य रेल्वे लाईन



**वार्ड क्रमांक 04—रफी अहमद किदवई वार्ड**

उत्तर —क्वारी नदी

पूर्व —दिल्ली मुंबई मुख्य रेल्वे लाईन

दक्षिण —लालोर रेल्वे फाटक से अंबाह बायपास पर पश्चिम की ओर चलकर उत्तर की आबादी लेते हुये नाला नंबर 1 की पुलिया तक, वहाँ से उत्तर की ओर मुडकर सुंदरपुर दगरे तक. सुंदरपुर दगरे पर पश्चिम की ओर चलकर उत्तरी आबादी लेते हुये ए.बी. रोड पर पलाश ढाबे तक। यहाँ से ए0बी0 रोड पर चलकर निवी जोड पर पहुंचकर पश्चिम की ओर चलते हुए निवी गांव तक

पश्चिम —निवी गांव की पश्चिमी राजस्व सीमा पर चलकर क्वारी नदी तक

**वार्ड क्रमांक 05—तात्याटोपे वार्ड**

उत्तर —मुंशी का बाग रोड पर पूर्व की ओर चलकर दक्षिणी आबादी लेते हुये ए.बी. रोड पर पलाश ढाबे तक। वहाँ से पूर्व दिशा की ओर नाला नं.01 तक।

पूर्व —नाला नं01 पर नाला—नाला दक्षिण की ओर चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुये अंबाह बायपास तक.

दक्षिण —अंबाह वायपास पर नाला नं. 01 की पुलिया से पश्चिम की ओर चलकर उत्तरी आबादी लेते हुये ए.बी.रोड क्रॉस कर फोरेस्ट कालोनी होते हुए जौरी गांव नई आबादी तक.

पश्चिम —फोरेस्ट कालोनी के पीछे जौरी गांव की नई आबादी से उत्तर की ओर चलकर पूर्वी आबादी को लेते हुये मुंशी का बाग रोड तक

**वार्ड क्र. 06 लालबहादुर शास्त्री वार्ड**

उत्तर —मुरैना गांव से पूर्व की ओर चलकर दक्षिणी आबादी लेते हुये मुरैना गांव तथा जौरी की मिश्रित आबादी को शामिल कर मुंशी के बाग के पीछे तक

पूर्व —मुंशी का बाग के बाहर से दक्षिण की ओर चलकर पश्चिमी आबादी शामिल करते हुये जौरी गांव के बाहर से निकलकर एस.एस. रोड पर मुरैना गांव की सीमा पर दाऊ जी नगर तक.

दक्षिण —एम.एस. रोड पर दाऊ जी नगर से पश्चिम की ओर चलकर उत्तरी आबादी को लेते हुये कैलादेवी फ्लोर मिल तक

पश्चिम —एम.एस. रोड पर कैलादेवी फ्लोर मिल से मुरैना गांव के मार्ग पर उत्तर की ओर चलकर पूर्वी आबादी को लेते हुये मुरैना गांव तक

**वार्ड क्रमांक 07— दाऊ जी वार्ड**

उत्तर —मुरैना गांव की सीमा के उत्तर—पश्चिमी कोने से पूर्व की ओर चलते दक्षिणी आबादी लेते हुये हुए मुरैना गांव तक .

पूर्व —मुरैना गांव से दाऊ जी का मंदिर एवं गांव की शेष आबादी लेते हुए दक्षिण की ओर चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुये एम.एस. रोड पर कैलादेवी प्लोर मिल तक, यहां से एम.एस. रोड क्रास कर दक्षिण दिशा में मुरैना गांव की राजस्व सीमा तक.

दक्षिण —मुरैना गांव की दक्षिणी राजस्व सीमा

पश्चिम —मुरैना गांव की पश्चिमी सीमा पर उत्तर की ओर चलकर पूर्वी आबादी लेते हुये एम.एस.रोड क्रास कर श्रीराम फार्म हाउस के पास नरूआ—नरूआ चलकर मुगाँवली से लगी राजस्व सीमा तक

**वार्ड क्रमांक 08—डा.राजेन्द्रप्रसाद वार्ड**

उत्तर —मुरैना गांव की पूर्वी सीमा से जौरा खुर्द की उत्तरी सीमा पर पूर्व की ओर चलते हुये दक्षिणी आबादी को लेते हुये जौरी गांव के चौराहे तक

पूर्व —जौरी गांव के चौराहे से दक्षिण की ओर चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुये एम.एस. रोड पर रामेश्वर यादव के मार्केट तक

दक्षिण —एम एस रोड पर रामेश्वर यादव मार्केट से पश्चिम की ओर चलते हुए उत्तरी आबादी लेते हुये सोलंकी पेट्रोल पंप से आगे चलकर जौरा खुर्द की राजस्व सीमा पर दाऊजी नगर तक

पश्चिम —दाऊजी नगर से उत्तर की ओर चलकर पूर्वी आबादी को शामिल कर जौरा खुर्द की उत्तरी सीमा तक

**वार्ड क्रमांक 09—महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड**

उत्तर —जौरी गांव के चौराहे से पूर्व की ओर चलकर दक्षिणी आबादी को लेते हुये ऋषि गालब कालेज के सामने से ए.बी. रोड तक

पूर्व —ऋषिगालब कॉलेज रोड जौरी रोड के जोड से ए.बी. रोड पर दक्षिण की ओर चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुये बैरियर चौराहे तक .

दक्षिण —बैरियर चौराहे से एम.एस. रोड पर पश्चिम की ओर चलकर उत्तरी आबादी को शामिल करते हुये रतनदेव मैरिज गार्डन के सामने से होकर रामेश्वर यादव के मार्केट तक.

पश्चिम —एम एस रोड रामेश्वर यादव मार्केट के जोड से उत्तर की ओर चलकर पूर्वी आबादी को लेते हुये जौरी गांव के चौराहे तक

**वार्ड क्रमांक 10—चन्द्रशेखर आजाद वार्ड**

उत्तर —जौरी गांव की नई आबादी से पूर्व की ओर चलकर दक्षिणी आबादी को लेते हुये फोरेस्ट कालोनी होते हुए ए.बी. रोड तक

पूर्व —ए.बी. रोड पर फोरेस्ट कालोनी रोड के मिलान से दक्षिण की ओर चलकर पश्चिमी आबादी को लेते हुये के.एस. फ़ैक्ट्री के सामने जौरी रोड तक

दक्षिण —ए.बी. रोड से ऋषि गालब कालेज के सामने से पश्चिम की ओर चलकर उत्तरी आबादी लेते हुये जौरी गांव के चौराहे तक

पश्चिम —जौरी गांव की पश्चिमी सीमा पर उत्तर की ओर चलकर पूर्वी आबादी लेते हुये फोरेस्ट कालोनी के पीछे नई आबादी तक

**वार्ड क्रमांक 11—सुखदेव वार्ड**

उत्तर —ए.बी. रोड से अंबाह बायपास पर पूर्व की ओर चलते हुए दक्षिणी आबादी लेते हुये बारह फुटा हनुमान रोड तक

पूर्व —अंबाह बायपास से बारह फुटा हनुमान रोड पर सिद्धनगर से दक्षिण की ओर चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुये मस्जिद वाली गली तथा बाल सम्प्रेक्षणगृह के बगल से चलकर जगदीश सीमेंट वाले की गली से नैनागढ रोड तक

दक्षिण —नैनागढ रोड पर जगदीश सीमेंट वाले की गली से पश्चिम की ओर चलकर उत्तरी आबादी लेते हुये के.एस. फ़ैक्ट्री चौराहे तक

पश्चिम —के.एस. फ़ैक्ट्री चौराहे से ए.बी. रोड पर उत्तर की ओर चलकर पूर्वी आबादी लेते हुये अंबाह बायपास तक ।

**वार्ड क्रमांक 12—पशुपतिनाथ वार्ड**

उत्तर —ए.बी. रोड से नैनागढ रोड पर पूर्व की ओर चलकर दक्षिणी आबादी को लेते हुये कृषि उपज मण्डी के सामने तिलहन संघ रोड के मिलान तक ।

पूर्व —नैनागढ रोड से तिलहन संघ रोड पर दक्षिण की ओर चलते हुए पश्चिमी आबादी शामिल कर, प्रेमी नर्सिंग होम रोड तक. यहाँ से पश्चिम की ओर मुड़कर उत्तरी आबादी शामिल कर डॉ. तोमर के चौराहे से होकर दक्षिण की ओर चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुये एम.एस. रोड पर कोर्ट तिराहे तक.

दक्षिण —एम.एस. रोड पर कोर्ट तिराहे से पश्चिम की ओर चलकर उत्तरी आबादी लेते हुये बैरियर चौराहे तक

पश्चिम —बैरियर चौराहे से ए.बी. रोड पर उत्तर की ओर चलकर पूर्वी आबादी लेते हुये नैनागढ रोड तक.

#### वार्ड क्रमांक 13—डा.राममनोहर लोहिया वार्ड

उत्तर —नैनागढ रोड पर तिलहन संघ रोड के मिलान से पूर्व की ओर चलकर दक्षिणी आबादी को लेते हुये माहेश्वरी धर्मशाला शामिल कर बी.आर. गार्डन के पास नाला नं. 01 की पुलिया तक

पूर्व —बी.आर गार्डन के पास नाला नं. 01 की पुलिया से नाले-नाले दक्षिण की ओर चलकर पश्चिमी आबादी को लेते हुये शुक्ला होटल की पुलिया तक

दक्षिण —शुक्ला होटल की पुलिया से एमएस रोड पर पश्चिम की ओर चलकर उत्तरी आबादी लेते हुये कोर्ट रोड तिराहे तक.

पश्चिम —एमएस रोड से कोर्ट रोड पर उत्तर की ओर चलकर पूर्वी आबादी को लेते हुये डा.तोमर के चौराहे तक. यहाँ से पूर्व की ओर मुड़कर दक्षिणी आबादी लेते हुये तिलहन संघ के क्वार्टरों के बगल से उत्तर की ओर तिलहन संघ रोड पर चलकर पूर्वी आबादी लेते हुये नैनागढ रोड तक.

#### वार्ड क्रमांक 14—महाराणा प्रताप वार्ड

उत्तर —अम्बाह बायपास पर बारहफुटा हनुमान जी रोड से पूर्व की ओर चलते हुये दक्षिणी आबादी लेते हुये हुए नाला नं. 01 की पुलिया तक.

पूर्व —अम्बाह बायपास पर नाला नं.01 की पुलिया से नाले-नाले दक्षिण की ओर चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुये ट्रेंच रोड तक एवं ट्रेंच रोड पर पूर्व की ओर मुड़कर दक्षिणी आबादी शामिल कर सेन्द्रल वेयरहाउस के पीछे की गली से निकलकर महावीरपुरा मेन रोड तक. यहाँ से दक्षिण की ओर चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुये वेयरहाउस रोड तक.

दक्षिण —वेयरहाउस रोड पर महावीरपुरा मेनरोड के मिलान से पश्चिम की ओर चलकर उत्तरी आबादी शामिल करते हुये माधौपुरा रोड होते हुए मंडी गेट के सामने से निकलकर जगदीश सीमेंट वाले की गली तक.

पश्चिम —नैनागढ रोड से जगदीश सीमेंट वाले की गली से पूर्वी आबादी शामिल कर बाल सम्प्रेक्षणगृह के बगल से होकर सिद्धनगर मस्जिद वाली रोड एवं बारह फुटा हनुमान मंदिर रोड से होकर अम्बाह बायपास तक

**वार्ड क्रमांक 15— महादेव वार्ड**

- उत्तर —अंबाह बायपास रोड पर नाला नम्बर 01 के मिलान से पूर्व की ओर चलकर दक्षिणी आबादी लेते हुये शांति वेयर हाउस के पास कच्चे रास्ते तक
- पूर्व —अंबाह बायपास रोड से शांति वेयर हाउस के पास कच्चे रास्ते से दक्षिण की ओर चलकर पश्चिमी आबादी शामिल करते हुये ट्रेविंग ग्राउड रोड क्रॉस कर भगवानदास चना वाले की गली से निकलकर तथा दक्षिणी आबादी शामिल करते हुये महावीरपुरा मेन रोड पर पश्चिमी आबादी लेते हुये वेयर हाउस के पीछे गली तक।
- दक्षिण —महावीर पुरा मेन रोड से वेयरहाउस के पीछे की गली में पश्चिम की ओर चलकर उत्तरी आबादी लेते हुये ट्रेच रोड होकर नाला नम्बर 01 तक
- पश्चिम —नाला नं. 01 पर ट्रेच रोड के मिलान से उत्तर की ओर नाला—नाला चलकर पूर्वी आबादी लेते हुये अंबाह वायपास रोड तक

**वार्ड क्रमांक 16— रामजानकी वार्ड**

- उत्तर —कृषि उपज मण्डी तिराहे से माधौपुरा रोड पर पूर्व की ओर चलते दक्षिणी आबादी को लेते हुए माधौपुरा की पुलिया क्रॉस कर वेयरहाउस रोड पर अ.जा.क. थाने की पुलिया तक.
- पूर्व —अजाक थाने की पुलिया से शिक्षानगर रोड पर दक्षिण की ओर चलते हुए पश्चिमी आबादी शामिल कर एम.एस. रोड पर श्यामसुंदर के पेट्रोल पंप तक
- दक्षिण —एम.एस.रोड पर श्यामसुंदर के पेट्रोलपंप से पश्चिम की ओर चलकर उत्तरी आबादी लेते हुये नाला नम्बर 01 की पुलिया तक
- पश्चिम —नाला नं.01 के किनारे —किनारे उत्तर की ओर चलकर पूर्वी आबादी लेते हुये बी.आर.गार्डन के पास नाला नं. 01 की पुलिया तक. यहाँ से नैनागढ रोड पर पश्चिम की ओर चलकर उत्तरी आबादी को लेते हुये कृषि उपज मंडी तिराहे तक

**वार्ड क्रमांक 17— जवाहरलाल नेहरू वार्ड**

- उत्तर —गर्ल्स स्कूल रोड पर गर्ल्स स्कूल से पूर्व की ओर चलकर दक्षिणी आबादी लेते हुये गोपीनाथ की पुलिया पंचमुखी हनुमान तक
- पूर्व —गोपीनाथ की पुलिया के पास पंचमुखी हनुमान से दक्षिण की ओर जहारसिंह शर्मा मार्ग पर मध्य में चलते हुये पश्चिमी आबादी लेते हुये एस.एस. रोड के पास तोताराम घी वाले क मकान तक
- दक्षिण —एम.एस.रोड पर तोताराम घी वाले के मकान से पश्चिम की ओर चलकर उत्तरी आबादी लेते हुये नेहरू पार्क तक।

पश्चिम —नेहरू पार्क से शिक्षा नगर रोड पर उत्तर की ओर चलकर पूर्वी आबादी लेते हुये गर्ल्स स्कूल तक

#### वार्ड क्रमांक 18—महावीर वार्ड

उत्तर —महावीरपुरा मैन रोड से पूर्व में हीरालाल वाली गली में चलकर दक्षिणी आबादी को लेते हुये मस्जिद चौराहे तक

पूर्व —हीरालाल वाली गली के मिलान से मस्जिद चौराहे से दक्षिण की ओर भरोषी की धर्मशाला रोड पर चलते हुए पश्चिमी आबादी को लेते हुये गर्ल्स स्कूल रोड तक।

दक्षिण —गर्ल्स स्कूल रोड पर भरोषी की धर्मशाला रोड के मिलान से पश्चिम की ओर चलकर उत्तरी आबादी लेते हुये महावीरपुरा मैन रोड तक।

पश्चिम —गर्ल्स स्कूल रोड से महावीरपुरा मैन रोड पर उत्तर की ओर चलकर पूर्वी आबादी को लेते हुये हीरालाल वाली गली के मिलान तक।

#### वार्ड क्रमांक 19—संत रविदास वार्ड

उत्तर —अंबाह बायपास मार्ग पर शांति वेयरहाउस के पास कच्चे रास्ता से पूर्व की ओर चलकर दक्षिणी आबादी को लेते हुये नाला नम्बर 02 के मिलान तक।

पूर्व —अंबाह बायपास रोड से दक्षिण की ओर नाला नं.02 के सहारे—सहारे सिंघलबस्ती गोपी हाईस्कूल रोड से चलकर पश्चिमी आबादी को लेते हुये मस्जिद चौराहे तक

दक्षिण —मस्जिद चौराहे से हीरालाल वाली गली में पश्चिम की ओर चलकर उत्तरी आबादी लेते हुये महावीरपुरा मैन रोड तक, यहां से मुड़कर भगवानदास चना वाले की गली के मध्य से चलकर उत्तरी आबादी लेते हुये ट्रैच रोड पर गंगाराम राठौर के मकान तक।

पश्चिम — गंगाराम राठौर के मकान के पास से ट्रैच रोड पर उत्तर की ओर चलकर पूर्वी आबादी लेते हुये अंबाह बायपास पर शांति वेयरहाउस के पास कच्चे रास्ते तक।

#### वार्ड क्रमांक 20—महात्मा ज्योतिबा फुले वार्ड

उत्तर —अंबाह बायपास मार्ग पर नाला नं. 02 के मिलान से पूर्व की ओर चलकर दक्षिणी आबादी लेते हुये लालौर रेल्वे क्रांसिंग तक

पूर्व —लालौर रेल्वे क्रांसिंग से रेल्वे लाइन के किनारे—किनारे दक्षिण की ओर चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुये नाला नम्बर 02 व 03 के जंक्शन से होते हुए नाला नम्बर 02 मार्ग पर गोपेश्वर डंडोतिया की गली तक

दक्षिण —नाला नं.02 मार्ग से गोपेश्वर डंडोतिया की गली में पश्चिम की ओर चलकर उत्तरी आबादी

लेते हुये मस्जिद चौराहे तक।

पश्चिम —इस्लामपुरा मस्जिद चौराहे से गोपीहाई स्कूल रोड से उत्तर में आगे चलकर पूर्वी आबादी को लेते हुये नाला नं. 02 के सहारे—सहारे अंबाह बायपास रोड तक।

**वार्ड क्रमांक 21— संत विनोवा भावे वार्ड**

उत्तर —इस्लामपुरा मस्जिद चौराहे से पूर्व की ओर चलकर दक्षिणी आबादी को लेते हुये नाला नम्बर 02 मार्ग तक

पूर्व —नाला नम्बर 02 पर गोपेश्वर डंडोतिया की गली से दक्षिण की ओर चलकर पश्चिमी आबादी को लेते हुये गोपीनाथ की पुलिया हाकिम सिंह डंडोतिया के मकान तक

दक्षिण —हाकिम सिंह डंडोतिया के मकान से गर्ल्स स्कूल रोड पर पश्चिम की ओर चलकर उत्तरी आबादी को लेते हुये भरोषी की धर्मशाला रोड के मिलान तक

पश्चिम —गर्ल्स स्कूल रोड से भरोषी की धर्मशाला रोड पर उत्तर की ओर चलकर पूर्वी आबादी को लेते हुये धर्मशाला चौराहे से होकर मस्जिद चौराहे तक

**वार्ड क्रमांक 22—महामाया वार्ड**

उत्तर —पीपलवाली माता से नाला नं. 02 मार्ग पर सिंघल बस्ती की ओर चलकर दाईं ओर की आबादी को लेते हुये नाला नम्बर 02 एवं 03 के मिलान के पास रेलवे लाईन तक.

पूर्व —नाला जंक्शन से रेलवे लाइन के किनारे—किनारे दक्षिण की ओर चलकर पश्चिमी आबादी को लेते हुये महादेव नाका तक

दक्षिण —महादेव नाका से शंकर बाजार मार्ग पर पश्चिम की ओर चलकर उत्तरी आबादी लेते हुये गोपीनाथ की पुलिया तक

पश्चिम —गोपीनाथ की पुलिया से उत्तर की ओर चलकर पूर्वी आबादी को लेते हुये नाला नं. 02 मार्ग पर पीपलवाली माता तक

**वार्ड क्रमांक 23—बिहारी जी वार्ड**

उत्तर —महामाया मंदिर रोड पर पालिका बाजार से पूर्व की ओर चलकर दक्षिणी आबादी को लेते हुये शंकर बाजार होकर अंडर ब्रिज के पास रेलवे लाइन तक

पूर्व —अंडर ब्रिज के पास से रेलवे लाइन के किनारे—किनारे दक्षिण की ओर चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुये रेलवे माल गोदाम तक

दक्षिण —रेलवे गोदाम से पश्चिम की ओर एमएस रोड पर चलकर उत्तरी आबादी लेते हुये गुफा मंदिर तक

पश्चिम —गुफा मंदिर से उत्तर की ओर जाहरसिंह शर्मा मार्ग पर चलकर पूर्वी आबादी लेते हुये पालिका बाजार गोपीनाथ की पुलिया तक.

#### वार्ड क्रमांक 24—सुभाष चंद्र बोस वार्ड

उत्तर —रेलवे अंडरब्रिज से अंबाह रोड पर पूर्व की ओर चलकर दक्षिणी आबादी लेते हुये अंबाह तिराहे तक

पूर्व —अंबाह तिराहे पर राजपूत आडीटर के मकान से दक्षिण की ओर चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुये ओव्हरब्रिज के पास उमा तोमर के मकान तक

दक्षिण —उमा तोमर के मकान से ओव्हरब्रिज के सहारे—सहारे पश्चिम की ओर चलकर—उत्तरी आबादी लेते हुये रेलवे लाईन तक

पश्चिम —रेलवे ओवरब्रिज के पास प्लेटफार्म नं.01 से रेलवे लाइन के किनारे—किनारे उत्तर की ओर चलकर पूर्वी आबादी लेते हुये रेलवे अंडर ब्रिज तक

#### वार्ड क्रमांक 25—उत्तमपुरा वार्ड

उत्तर —उत्तमपुरा रेलवे पुलिया से पूर्व की ओर चलकर दक्षिणी आबादी लेते हुये यादव गली होकर बदलुआ बाल्मीक की गली तक

पूर्व —बदलुआ बाल्मीक की गली से दक्षिण की ओर चलकर एम.एल.ए. रोड क्रॉस कर पश्चिमी आबादी लेते हुये जैन बगीची रोड से होकर अंबाह रोड तक

दक्षिण —अंबाह रोड पर जैन बगीची रोड के मिलान से पश्चिम की ओर चलकर उत्तरी आबादी लेते हुये रेलवे अंडर ब्रिज के पास रेलवे लाईन तक

पश्चिम —रेलवे अंडरब्रिज से रेलवे लाइन के किनारे—किनारे उत्तर की ओर चलकर पूर्वी आबादी लेते हुये उत्तमपुरा रेलवे पुलिया तक

#### वार्ड क्रमांक 26—डा.भीमराव अम्बेडकर वार्ड

उत्तर —यादव गली से पूर्व की ओर चलकर बदलुआ बाल्मीक की गली से निकलकर दक्षिणी आबादी लेते हुये आनंदनगर एवं गोटेनगर आबादी शामिल करते हुए गिराज डंडौतिया की गली तक

पूर्व —गिराज डंडौतिया की गली में दक्षिण की ओर चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुये देवीराम उपाध्याय के बाडे को छोड़ते हुए सेंगर गली होते हुए अंबाह रोड तक

दक्षिण —अंबाह रोड पर सेंगर गली से पश्चिम की ओर चलकर उत्तरी आबादी लेते हुये जैन बगीची रोड के मिलान तक



पश्चिम —जैन बगीची रोड से उत्तर की ओर चलकर पूर्वी आबादी लेते हुये एम.एल.ए. रोड क्रॉस कर यादव गली के अंत तक

#### वार्ड क्रमांक 27—हनुमान वार्ड

उत्तर —गिर्राज डंडौतिया की गली से आगे कन्हैया डंडौतिया के कुए से पूर्व की ओर डामर रोड पर चलकर दक्षिणी आबादी लेते हुये इंदिरा सरोवर तक

पूर्व —इंदिरा सरोवर से दक्षिण की ओर बडोखर हनुमान जी रोड होते हुए पश्चिमी आबादी शामिल कर अंबाह रोड तक

दक्षिण —अंबाह रोड पर बडोखर हनुमान जी रोड के मिलान से पश्चिम की ओर चलकर उत्तरी आबादी लेते हुये सेंगर वाली गली के मिलान तक.

पश्चिम —अंबाह रोड से उत्तर की ओर सेंगर वाली गली में चलकर पूर्वी आबादी लेते हुये देवीराम उपाध्याय का बाडा शामिल करते हुए बाडे की वाउंड्री के सहारे—सहारे पीछे गिर्राज डंडौतिया वाली गली से होकर कन्हैया डंडौतिया के कुए तक

#### वार्ड क्रमांक 28—इंदिरा गाँधी वार्ड

उत्तर —अंबाह तिराहे से पूर्व की ओर चलकर दक्षिणी आबादी लेते हुये कैलाश छारी के मकान तक

पूर्व —कैलाश छारी के मकान से दक्षिण की ओर चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुये कालीमाता मंदिर तक।

दक्षिण —काली माता मंदिर से सडक मध्य में पश्चिम की ओर चलकर उत्तरी आबादी लेते हुये भगवानदास बाल्मीक के चौराहे से निकलकर उत्तरी आबादी लेते हुये ओव्हर ब्रिज के पास जे. एस. गार्डन तक।

पश्चिम —ओव्हर ब्रिज के पास जे.एस. गार्डन से उत्तर की ओर अंबाह रोड पर चलकर पूर्वी आबादी लेते हुये अंबाह तिराहे तक।

#### वार्ड क्रमांक 29—मनोहर वार्ड

उत्तर —ओव्हर ब्रिज के पास जे.एस. गार्डन से पूर्व की ओर चलकर दक्षिणी आबादी लेते हुये भगवानदास बाल्मीक के चौराहे तक।

पूर्व —भगवानदासबाल्मीक के चौराहे से दक्षिण की ओर चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुये माहौर चौराहे तक. यहां से पूर्व की ओर नन्दे का पुरा रोड पर चलकर दक्षिण में माहौर गली होते हुये पश्चिमी आबादी लेते हुये कबीर आश्रम वाली गली तक

दक्षिण —कबीर आश्रम वाली गली से पश्चिम की ओर चलकर उत्तरी आबादी लेते हुये रेल्वे लाईन तक

पश्चिम —रेल्वे लाइन के किनारे —किनारे उत्तर की ओर चलकर पूर्वी आबादी लेते हुये ओव्हर ब्रिज के किनारे—किनारे चलकर जे.एस. गार्डन तक।

#### वार्ड क्रमांक 30—सरोजनी नायडू वार्ड

उत्तर —रेल्वे लाईन से कबीर आश्रम की गली में पूर्व की ओर चलकर दक्षिणी आबादी लेते हुये नन्दे का पुरा तक. यहां से पश्चिम की ओर मुड़कर उत्तरी आबादी लेते हुये माहौर चौराहे तक. यहां से उत्तर की ओर चलकर पूर्व की आबादी लेते हुये भगवानदास बाल्मीक के चौराहे तक इससे आगे पूर्व की आबादी लेते हुये नन्देपुरा को शामिल कर काली माता मंदिर तक।

पूर्व —काली माता मंदिर रोड से दक्षिण की ओर चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुये नन्देपुरा को शामिल कर काली माता मंदिर तक।

दक्षिण —नंदे का पुरा रोड के मिलान से किशनपुर रोड पर पश्चिम की ओर चलकर उत्तरी आबादी को लेते हुये रेल्वे क्रॉसिंग तक

पश्चिम —शिकारपुर रेल्वे क्रॉसिंग से उत्तर की ओर चलकर पूर्वी आबादी लेते हुये रेल्वे लाइन के किनारे—किनारे कबीर आश्रम की गली तक .

#### वार्ड क्रमांक 31—स्वामी विवेकानंद वार्ड

उत्तर —नाला नम्बर 01 पर रक्षपाल सिंह की पुलिया से नाला—नाला पूर्व की ओर चलकर दक्षिणी आबादी लेते हुये रेल्वे लाइन तक

पूर्व —नाला न. 01 के पास रेलवे लाइन के किनारे—किनारे दक्षिण की ओर चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुये शिकारपुर दगरे तक

दक्षिण —शिकारपुर दगरे पर पश्चिम की ओर चलकर उत्तरी आबादी लेते हुये किन्तु शिकारपुर गांव की आबादी छोड़ते हुए सिंचाई विभाग के नरुआ की पुलिया तक

पश्चिम —सिंचाई विभाग के नरुआ की पुलिया से उत्तर की ओर चलकर पूर्वी आबादी को लेते हुये शिकारपुर आबादी छोड़ते हुए नाला नं01 रक्षपाल सिंह वाली पुलिया तक

#### वार्ड क्रमांक 32—गणेश वार्ड

उत्तर —एम.एस. रोड पर गणेशपुरा की पुलिया से पूर्व की ओर चलकर दक्षिणी आबादी को लेते हुये रेल्वे माल गोदाम तक।

पूर्व —रेलवे माल गोदाम से रेलवे लाईन के किनारे—किनारे दक्षिण की ओर चलकर पश्चिमी आबादी को लेते हुये नाला नं.01 के प्रारंभिक बिन्दु तक।

दक्षिण —रेलवे लाइन से नाला नं.1 के किनारे—किनारे पश्चिम की ओर चलकर उत्तरी आबादी लेते हुये रक्षपाल सिंह की पुलिया तक।

पश्चिम —रक्षपाल की पुलिया से उत्तर की ओर चलकर पूर्वी आबादी लेते हुये छात्रावास रोड क्रॉस कर गोस्वामी रोड के पीछे से अ.जा. छात्रावास शामिल करते हुए गणेशपुरा रोड से एम.एस. रोड गणेशपुरा की पुलिया तक।

#### वार्ड क्रमांक 33—रामप्रसाद बिस्मिल वार्ड

उत्तर —एम.एस.रोड पर पुराने बस स्टेण्ड की पुलिया से पूर्व की ओर चलकर दक्षिणी आबादी लेते हुये डी.जे.साहब के बंगले तक

पूर्व —डी.जे.साहब के बंगले से गणेशपुरा रोड पर दक्षिण की ओर चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुये गोस्वामी रोड तक। गोस्वामी रोड की दोनो ओर की आबादी लेते हुए छात्रावास रोड क्रॉस कर रक्षपाल सिंह की पुलिया नाला नं. 01 तक

दक्षिण —रक्षपाल सिंह की पुलिया से पश्चिम की ओर चलकर उत्तरी आबादी लेते हुये नाले-नाले से कोतवाली के पीछे पुलिया तक

पश्चिम —कोतवाली की पुलिया से नाले-नाले चलकर पूर्वी आबादी लेकर गांधी कालोनी की पुलिया होकर पुराने बस स्टेण्ड की पुलिया तक

#### वार्ड क्रमांक 34—तुलसी वार्ड

उत्तर —नाला नं 01 पर कोतवाली की पुलिया से नाला- नाला पूर्व की ओर चलकर दक्षिणी आबादी लेते हुये रक्षपाल सिंह की पुलिया तक

पूर्व —रक्षपाल सिंह की पुलिया से दक्षिण की ओर नरुआ नरुआ चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुये शिकारपुर दगरे तक

दक्षिण —शिकारपुर दगरे पर पश्चिम की ओर चलकर उत्तरी आबादी लेकर गड्डे के सामने एस.ए. एफ. खेत से होकर 5वी बटालियन रोड एवं वनखंडी रोड के मिलान तक

पश्चिम —वनखंडी रोड मिलान से 5वी बटालियन रोड पर उत्तर की ओर चलकर पूर्वी आबादी लेकर परेड ग्राउंड के गेट तक यहां से परेड ग्राउंड को शामिल करते हुए परेड ग्राउंड के सहारे-सहारे कोतवाली के पीछे नाला नं. 01 की पुलिया तक.

**वार्ड क्रमांक 35— शंकर वार्ड**

- उत्तर —शिकारपुर दगरे पर गली नम्बर 01 बाल्मीक गली के मिलान से पूर्व की ओर चलकर दक्षिणी आबादी लेते हुये शिकारपुर आबादी लेते हुए रेलवेक्रांसिग तक
- पूर्व —शिकारपुर रेलवे क्रांसिग से दक्षिण की ओर रेलवे लाईन के किनारे—किनारे चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुये मुरैना ब्रांच कैनाल तक .
- दक्षिण —रेलवे पुल से नहर—नहर पश्चिम की ओर चलकर उत्तरी आबादी लेते हुये पीपरीपुरा की मोरी तक.
- पश्चिम —मुरैना शाखा नहर से पीपरीपुरा के नरुआ—नरुआ उत्तर की ओर चलकर पूर्वी आबादी लेते हुये गली नं.01 बाल्मीक गली से निकलकर शिकारपुर दगरे तक.

**वार्ड क्रमांक 36—संजय गॉधी वार्ड**

- उत्तर —5वी बटालियन रोड पर वनखंडी तिराहे से पूर्व की ओर चलकर दक्षिणी आबादी लेते हुये गड्ढा के किनारे से होकर शिकारपुर दगरे पर गली नं. 01 बाल्मीक गली तक
- पूर्व —शिकारपुर दगरे से गली नं.01 बाल्मीक गली में दक्षिण की ओर चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुये जीवाराम की वाउंड्री को शामिल करते हुए नरुआ—नरुआ चलकर मुरैना शाखा नहर तक
- दक्षिण —पीपरीपुरा की मोरी से नहर—नहर पश्चिम की ओर चलकर उत्तरी आबादी को लेते हुये सैयद के पास ए.बी. रोड की पुलिया तक ।
- पश्चिम — ए.बी.रोड पर करील वाले सैयद की पुलिया से उत्तर की ओर चलकर पूर्वी आबादी लेते हुये पीपरीपुरा दगरे तक. एवं यहाँ से पीपरीपुरा दगरे पर चलते हुए पूरन पटवारी के मकान के सामने से निकलकर उत्तर की ओर चलते हुए रामस्वरूप पार्षद की गली से चलकर उत्तरी आबादी लेते हुये, 5वी बटालियन रोड पर पहुंचकर पूर्वी आबादी लेते हुये वनखण्डी रोड के मिलान तक.

**वार्ड क्रमांक 37—गुरुनानक वार्ड**

- उत्तर —वनखण्डी रोड पर ठाकुर गली से पूर्व की ओर चलकर दक्षिणी आबादी लेते हुये 5वी बटालियन रोड एवं वनखण्डी रोड के मिलान तक
- पूर्व —वनखण्डी रोड जंक्शन से 5वी बटालियन रोड पर दक्षिण की ओर चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुये आमपुरा गीतांजली भवन के पीछे एसएएफ के खेत तक
- दक्षिण —5वी बटालियन रोड पर एस.ए.एफ. के खेत से गीतांजली भवन आमपुरा रोड पर पश्चिम की ओर चलकर उत्तरी आबादी लेते हुये ठाकुर गली तक.

पश्चिम —आमपुरा डामर रोड से ठाकुर गली में चलकर पूर्वी आबादी लेते हुये उत्तर की ओर वनखंडी रोड तक.

#### वार्ड क्रमांक 38—महात्मा गॉंधी वार्ड

उत्तर —एम.एस.रोड पर बाल निकेतन रोड के मिलान से पूर्व की ओर चलकर दक्षिणी आबादी लेते हुये पशु चिकित्सालय के चौराहे से दक्षिण की ओर मुडकर 'नाला नम्बर 01 को शामिल करते हुए वायरलैस केन्द्र के सामने' परेड ग्राउंड की पुलिया तक.

पूर्व —परेड ग्राउंड की पुलिया से दक्षिण की ओर चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुये परेड ग्राउंड के गेट के सामने से 5वी बटालियन रोड पर वनखण्डी रोड के मिलान तक.

दक्षिण —5वी बटालियन रोड के मिलान से वनखण्डी रोड पर पश्चिम की ओर चलकर उत्तरी आबादी लेते हुये बाल निकेतन रोड के मिलान बिन्दु तक.

पश्चिम —वनखंडी रोड एवं बाल निकेतन रोड के मिलान बिन्दु से बालनिकेतन रोड पर उत्तर की ओर चलकर पूर्वी आबादी लेकर एम.एस. रोड ओर बालनिकेतन रोड के मिलान बिन्दु तक.

#### वार्ड क्रमांक 39—गोपाल वार्ड

उत्तर —वनखण्डी रोड तिराहे से एम.एस. रोड पर पूर्व की ओर चलकर दक्षिणी आबादी लेते हुये बाल निकेतन रोड के मिलान तक

पूर्व —एम.एस. रोड और बाल निकेतन रोड के मिलान बिन्दु से बालनिकेतन रोड पर दक्षिण की ओर चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुये वनखण्डी रोड तक.

दक्षिण —वनखण्डी रोड पर बाल निकेतन रोड से पश्चिम की ओर उत्तरी आबादी लेते हुये गायत्री कालोनी की पुलिया तक

पश्चिम —वनखण्डी रोड पर गायत्री कालोनी की पुलिया से एमएस रोड पर वनखण्डी तिराहे तक.

#### वार्ड क्रमांक 40—वनखण्डी वार्ड

उत्तर —वनखण्डी रोड पर भगरी वाली गली से पूर्व की ओर चलकर दक्षिणी आबादी लेते हुये ठाकुर गली तक.

पूर्व —वनखण्डी रोड से ठाकुर गली में दक्षिण की ओर चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुये आमपुरा मुख्य मार्ग तक

दक्षिण —आमपुरा मुख्य मार्ग पर ठाकुर गली के मिलान से पश्चिम की ओर चलकर उत्तरी आबादी लेते हुये पूनम नर्सिंग होम के सामने नवोदय कालोनी रोड तक

पश्चिम --नवोदय कालोनी रोड से दयाल कान्वेंट स्कूल मार्ग पर चलकर पूर्वी आबादी लेते हुये भगरी वाली गली में प्रवेश कर उत्तर की ओर चलकर वनखण्डी रोड तक.

#### वार्ड क्रमांक 41—अटल बिहारी वाजपेयी वार्ड

- उत्तर --बैरियर चौराहे पर पुलिस कंटोल रूम के कोने से पूर्व की ओर एम.एस. रोड पर चलते हुए दक्षिणी आबादी लेते हुये वनखण्डी चौराहे पर भगरी वाली गली तक
- पूर्व --भगरी वाली गली में दक्षिण की ओर चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुये दयाल कान्वेंट स्कूल मार्ग एवं नवोदय कालोनी रोड से होकर आमपुरा चौराहे तक .
- दक्षिण --आमपुरा चौराहे से दक्षिण --पश्चिम की ओर न्यू आमपुरा रोड पर चलकर उत्तरी आबादी लेते हुये ए.बी. रोड पर सीता कोल्ड स्टोरेज तक
- पश्चिम --ए.बी. रोड पर सीता कोल्ड स्टोरेज से उत्तर की ओर चलकर पूर्वी आबादी लेते हुये बैरियर चौराहा पुलिस कंटोल रूम तक

#### वार्ड क्रमांक 42— लोकमान्य तिलक वार्ड

- उत्तर --आमपुरा चौराहे से पूर्व की ओर चलकर एस.ए.एफ. के खेत से निकलकर दक्षिणी आबादी लेते हुये संजय कालोनी रामस्वरूप पार्श्व वाली गली से होकर पीपरीपुरा रोड तक
- पूर्व --पीपरीपुरा रोड पर रामस्वरूप पार्श्व की गली के मिलान से दक्षिण की ओर चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुये पूरन पटवारी के मकान के सामने से होते हुए पीपरीपुरा दगरे से ए.बी.रोड तक
- दक्षिण --ए.बी.रोड पर पीपरीपुरा दगरे से उत्तर की ओर चलकर उत्तरी आबादी लेते हुये आमपुरा रोड के पास सीताकोल्ड स्टोरेज तक ।
- पश्चिम --ए.बी.रोड पर सीता कोल्ड स्टोरेज से आमपुरा रोड होते हुए पूर्वी आबादी लेते हुये आमपुरा चौराहे तक.

#### वार्ड क्रमांक 43— राजगुरु वार्ड

- उत्तर --किशनपुर रोड
- पूर्व --राजस्व ग्राम भौडरी की पूर्वी सीमा तक
- दक्षिण --आसन नदी
- पश्चिम --आगरा—मुम्बई रेलवे लाईन

**वार्ड क्रमांक 44—सरदार बल्लभ भाई पटेल वार्ड**

- उत्तर —मुरैना शाखा नहर  
 पूर्व —आगरा—मुम्बई रेल्वे लाईन  
 दक्षिण —आसन नदी  
 पश्चिम —राजस्व ग्राम डोमपुरा की पश्चिमी सीमा तक

**वार्ड क्रमांक 45—चम्बल वार्ड**

- उत्तर —महाराजपुर रोड से मयूरवन कालोनी के मुख्य मार्ग पर पूर्व की ओर चलकर दक्षिणी आबादी को लेते हुये विस्मिल चौराहे से होते हुए एबी रोड तक।  
 पूर्व —ए.बी. रोड पर मयूरवन कालोनी रोड के मिलान से दक्षिण की ओर चलते हुए पश्चिमी आबादी को लेते हुये मुरैना ब्रांच कैनाल तक  
 दक्षिण —ए.बी.रोड पर मुरैना ब्रांच कैनाल की पुलिया से नहर— नहर पश्चिम की ओर चलते हुये, उत्तरी आबादी शामिल करते हुए महाराजपुर की पुलिया तक.  
 पश्चिम —महाराजपुर की पुलिया से महाराजपुर रोड पर उत्तर की ओर चलकर पूर्वी आबादी लेते हुये मयूरवन कालोनी के मुख्य मार्ग के मिलान तक

**वार्ड क्रमांक 46—मयूरवन वार्ड**

- उत्तर —एम.एस. रोड पर महाराजपुर रोड से पूर्व की ओर चलकर दक्षिणी आबादी लेते हुये रेस्टहाउस तक  
 पूर्व —बैरियर चौराहे के पास रेस्टहाउस कॉर्नर से ए.बी.रोड पर दक्षिण की ओर चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुये मयूरवन कालोनी मुख्य मार्ग के मिलान तक.  
 दक्षिण —ए.बी.रोड से मयूरवन कालोनी मार्ग पर पश्चिम की ओर चलकर उत्तरी आबादी लेते हुये विस्मिल चौराहा शामिल करते हुये महाराजपुर रोड तक  
 पश्चिम —महाराजपुर रोड पर मयूरवन कालोनी के मिलान से उत्तर की ओर चलकर पूर्वी आबादी लेते हुये एम.एस. रोड तक.

**वार्ड क्रमांक 47— शहीद भगत सिंह वार्ड**

- उत्तर —एम.एस. रोड पर श्यामाचरण उपाध्याय कॉलेज के पास जौरा खुर्द की पश्चिमी सीमा से पूर्व की ओर चलकर दक्षिणी आबादी लेते हुये महाराजपुर रोड तक  
 पूर्व —एम.एस. रोड से महाराजपुर रोड पर दक्षिण की ओर चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुये मुरैना शाखा नहर की महाराजपुर पुलिया तक.

- दक्षिण —महाराजपुर की पुलिया से नहर-नहर पश्चिम की ओर चलते हुए उत्तरी आबादी लेते हुये महाराजपुर की पश्चिमीराजस्व सीमा तक.
- पश्चिम —महाराजपुर की पश्चिमी राजस्व सीमा पर उत्तर की ओर चलकर पूर्वी आबादी लेते हुये श्यामाचारण उपाध्याय कालेज के पास जौरा खुर्द की पश्चिमी सीमा पर एम.एस.रोड तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शिवानंद दुबे, आयुक्त.